

म.प्र. शासन वन विभाग



परियोजना का नाम – कारम तालाब परियोजना

वैकल्पिक वृक्षारोपण वर्ष 2017 – 18 से 2026 – 27
क्षेत्रफल – 2.0297 हे.

वन परिक्षैत्र – सरदारपुर
वनमण्डल धार (क्षैत्रीय)

वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट

भाग - 1 सामान्य विवरण

1. परियोजना का विवरण
 - अ. परियोजना का नाम :— कारम तालाब परियोजना
 - ब. भारत सरकार का अनुमोदन :— दिनांक
 - स. प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण :— हे.
 2. जिला :— धार
 3. वनमंडल :— धार
 4. परिक्षेत्र :— सरदारपुर
 5. तहसील :— सरदारपुर
 6. विकास क्षेत्र :— सरदारपुर
 7. विधानसभा क्षेत्र :— सरदारपुर
 8. ग्राम पंचायत :— सलवा
 9. क्षेत्रिय परिक्षेत्र सहायक वृत्त :— बदनावर
 10. क्षेत्रिय परिसर (बीट) :— राजोद
 11. परिसर रक्षक / वन रक्षक का नाम :— श्री अनिल हारोड़, वनरक्षक
 12. परिक्षेत्र सहायक का नाम :— श्री अंबाराम निगवाल
-
- 2/ 1. योजना का उद्देश्य — वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य
 2. क्षेत्रफल — 2.0297 हेक्टेअर
-
- 3/ उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण

कट बैक का क्षेत्र — निरंक

वृक्षारोपण का क्षेत्र — 2.0297 हेक्टेअर

संरक्षण का क्षेत्र — निरंक

लैण्टाना — निरंक
 - 4/ रोपणी का नाम जहाँ पौधे तैयार किये जायेंगे :— माही रोपणी सरदारपुर

 - 5/ रोपणी से रोपण स्थल की दूरी :—

(ए) ट्रक / ड्रैक्टर द्वारा	: 45 किमी.
(बी) सिरबोझ द्वारा	: 5 किमी.
 - 6/ सिंचाई का विवरण

(ए) जल स्रोत	: नदी
(बी) वृक्षारोपण से दूरी	: 600 मीटर
(सी) बिजली उपलब्धता	: नहीं है

7/ योजना की अवधि

10 वर्ष (2017 - 18 से 2026 - 27 तक)

8/ 1. योजना पर होने वाला संभावित व्यय : रु. 8.07 लाख
(विस्तृत प्रावक्कलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न है।)

2. प्रति हेक्टेएर व्यय : रु. 3.98 लाख

उपवन बड़ाधिकारी
उपदन बड़ो, सख्तारपुर

मामूल—
बृहत् परिक्षेत्राधिकारी
बृहत् परिक्षेत्र सरदारपुर

भाग 2 प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों / वृक्षारोपण के योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन की अनुशंसा की जाती है।

वन मण्डल अधिकारी

धार (क्षेत्रीय) वन मण्डल धार, (म. प्र.)

निरीक्षण दिनांक

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 176 दिनांक 10-३/७ द्वारा जारी
की गयी।

मुख्य वन संरक्षक

(v) इन्दौर वन वृत्त, इन्दौर (म. प्र.)

उपकरण मण्डलाधिकारी
उपवन मण्डल, सरदारपुर

Alam
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर

वैकल्पिक वृक्षारोपण कारम तालाब परियोजना

प्रस्तावना :— कारम तालाब निर्माण के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक एवं के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण 2.0297 हे. क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा।

1. 2.0297 हे. क्षेत्र का सर्व एवं सिमांकन कार्य किया जावेगा।
2. क्षेत्र को सिमेंटेड पोल एवं चेन लिंक फेसिंग द्वारा घेरा जावेगा, कुल लम्बाई 200 र.मी.।
3. क्षेत्र में 3250 गड्ढे खोदे जावेंगे एवं उपजाऊ मिट्टी एवं खाद गड्ढो में पुर्ती कर पौधा रोपण कार्य किया जावेगा।
4. वृक्षारोपण क्षेत्र में सागोन, खेर, करंज, सिवन, महुआ, नीम आदि प्रजाति के पौधे रोपित किए जाएंगे।
5. सुरक्षा कार्य हेतु 1 सुरक्षा श्रमीक का पुरे वर्ष भर रखने का प्रावधान किया गया है।
6. प्रोजेक्ट वर्ष 2017 – 18 से 2026 – 27 तक की तैयार की गई है।

उपवन अभ्यासाधिकारी
उपवन बँडल, सरदारपुर

बन परिक्षेत्राधिकारी
बन परिक्षेत्र सरदारपुर

वैकल्पिक वृक्षारोपण (2.0297 है., कारम तालाब परियोजना भाग एक)

हीत्र तैयारी (प्रथम वर्ष) 2017 - 18

परिशिष्ट - 1
1600 पौधे प्रति हैक्टर
मानव दिवस ₹ 289

क्र.	जाब दर आयटम नं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./मा.दि. प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)						
1	माग 2/1 सी.एफ जाब दर	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	2.0297 हे.	0.45 प्रति हे.	1	264
2	माग 2/2 सी.एफ जाब दर	क्षेत्र सफाई की समस्त अनुपयोगी झाड़िया (लैंटाना छोड़कर) एवं खाकरी कराई (20 सेमी से नीचे) एकत्रित करना जलाना क्षेत्र सफाई 21-30 सेमी 15000 क्षेत्र सफाई 31-45 सेमी 15000 क्षेत्र सफाई 46-60 सेमी 10000	2.0297 हे. 0 पौध 0 पौध 0 पौध	4 प्रति हे. 1.25 प्रति सैकड़ा 2.4 प्रति सैकड़ा 3.8 प्रति सैकड़ा	8.1188	2346
3	माग 2/4 सी.एफ जाब दर	स्टेकिंग गड्ढे खोदने के पूर्व रस्सी से लाइन डालना एवं चुने से गड्ढे हेतु निशान लगाना अंतराल 2X3 मीटर	3250 गड्ढे	2.5 प्रति हजार	8.125	2348
4	माग 2/5 सी.एफ जाब दर	गड्ढे खुदाई 45X45X45 से मी.	3250 गड्ढे	5 प्रति मा.दि. प्रति सैकड़ा	162.5	46963
5	माग 2/17 सी.एफ जाब दर	गड्ढों में कीटनाशक गोबर खाद मिश्रित व मिट्टी बदलना (45X45X45 से.मी. के गड्ढों में)	3250 गड्ढे	1.5 प्रति मा.दि. प्रति सैकड़ा	53.569392	14088.75
6	बाजार दर	चौकीदार हट निर्माण मजदूरी	0 नग	एल.एस.	0	0
योग मजदूरी					233	66009.75
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)						
8	बाजार दर 1200 रुप्रति घ.मी.	गोबर खाद कय व परिवहन (गड्ढों की संख्या x(एक गड्ढे का आयतन 3250 का 10%) (3250x(.45x.45x.45x10%))	30 घ.मी.	1200 प्रति घ.मी.		36000
9	बाजार दर	3250 गड्ढे में डालने के लिये उपजाऊ मिट्टी का संग्रहण एवं परिवहन गड्ढों का आयतन = 296 घ.मी. का 10 प्रतिशत	30 घ.मी.	500 प्रति घ.मी.		15000
10	बाजार दर	नीम खल्ली 30 ग्राम प्रति गड्ढा का कय 55 रु प्रति कि.ग्रा.	100 कि.ग्रा.	- प्रति घ.मी.		5500
11	बाजार दर	पौधा कय अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त झायुआ	3575 पौधे	11 प्रति पौधा		39325
12	बाजार दर	चौकीदार हट निर्माण सामग्री	0 नग	एल.एस.		0
13	बाजार दर	गेट निर्माण	0 नग	एल.एस.		0
14	बाजार दर	साईन बोर्ड	1 नग	एल.एस.		5000
15	बाजार दर	पाईप क्रय				8000
16	बाजार दर	अन्य व्यय (चुना, रस्सी, स्टेशनरी आदि)				3166
		योग सामग्री			0	111991
		योग सोपण मूलक गतिविधियाँ (मजदूरी + सामग्री)			233	178000.75

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल धार

उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

Mawal-
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर

फेसिंग के साथ प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी कार्य का प्रत्यावित व्यव (2017 - 18)

क्र.	जाब दर आयटम नं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./मा.दि. प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	लघु उद्योग निगम	चेनलिंक फेसिंग (1) पी.आर.सी.सी. पोल 2 भी. ऊराई एवं 2.5 मी. दूरी पर $(200/2.5=80 \times 10\% = 80 + 8 = 88)$	88 नग	296.3 प्रति नग	-	26070
2	लघु उद्योग निगम	13 प्रतिशत वेट राशि (1) पांच पक्कित में लगाने हेतु बारबेड वायर ($200 \times 5 = 1000 / 7 = 142 \text{ KG}$)	142 कि.ग्रा.	90 प्रति कि.ग्रा.	-	12780
3	बाजार दर	5 प्रतिशत वेट राशि				639
3	बाजार दर	(1) बारबेड को जोड़ने हेतु यूनेल्स 13 प्रतिशत वेट राशि	10 कि.ग्रा.	90 प्रति कि.ग्रा.	-	900
4	बाजार दर	(1) जी.आई तार बारबेड को बांधने हेतु	3 कि.ग्रा.	100 प्रति कि.ग्रा.	-	300
4	बाजार दर	13 प्रतिशत वेट राशि				39
5	सी.एफ.जाबदर	जी.आई तार एवं यूनेल्स की मदद से बारबेड वायर को बांधना एवं विविध कार्य मजदूरी	200 रमी.	0.16 प्रति रमी.	35.1635	9248
6	भाग2/ सी.एफ. जाबदर	फेसिंग पोल हेतु गड्ढे खुदाई कार्य ($0.30 \times 0.30 \times 0.45 \text{ CM}$)	88 नग	2.5 मा.दि.प्रति सी	2	636
7	PWD SOR	1:3:6 सीमेट कंकीट मसाले में पोल्स लगाने हेतु कंकीट मसाला $(80 \times 0.30 \times 0.30 \times 0.45 \text{ CM}) = 3.24$ $(80 \times 0.30 \times 0.10 \times 0.10 \text{ CM}) = 0.24$ $3.24 - 0.24 = 3 \text{ Sqm}$	3 घ.मी.	3643 प्रति घ.मी.	-	10929
8		पोल लगवाई कार्य	88 नग	अनुमानित 80 रु. प्रति नग		7040
योग :-					21	72087.1

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल घार

उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर


वन परिषेकाधिकारी
वन परिषेक रारदारपुर

परिशिष्ट - 1

1600 पौधे प्रति हेक्टर

मानव दिवस रु 318

द्वितीय वर्ष (रोपण कार्य) (2018 - 19)

क्र.	जाब दर आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./मा.दि. प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	
अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)							
1	सी.एफ जाब दर	पौधा परिवहन (निजी वाहन से 45 किमी दूरी तक)	3575 पौधा	170 प्रति सैकड़ा		6077.5	
2	भाग 3/3 सी.एफ जाब दर	पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड्ढों तक पहुंचना समस्त साईंज की दूरी 2 किमी तक)	3250 पौधा	0.4 मा.दि.प्रति सैकड़ा	13	4134	
3	भाग 3/5 सी.एफ जाब दर	पौधा रोपण 45X45X45 से.मी. गड्ढों में रोपण	3250 पौधे	1.8 मा.दि.प्रति सैकड़ा	58.5	18603	
निदाई कार्य							
4	भाग 3/9 सी.एफ जाब दर	निदाई गुडाई थाला दुरुस्ती कराई, मृत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना प्रथम निदाई (1 मी. गोलाकार व्यास में) द्वितीय निदाई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	3250 पौधे	1.25 मा.दि.प्रति सैकड़ा	40.6	12919	
			3250 पौधे	1 मा.दि.प्रति सैकड़ा	32.5	10335	
5	भाग 3/10 सी.एफ जाब दर	वृक्षरोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डालना एवं कीटनाशक का छिड़काव	3250 पौधे	0.6 मा.दि.प्रति सैकड़ा	20	6201	
6	सी.एफ जाब दर	सिवाई कार्य 8 माह हेतु 1 प्रमिक- निदाई गुडाई, साफाई कार्यों एवं क्षेत्र पथरीला, हार्ड मुरम अल्प वर्षा के कारण समुह (ब) को आधारित मानते हुए सफलता सुनिश्चित करने हेतु 8 माह में 2 बार सिवाई की आवश्यकता होगी।	208	208 8x1x26	208	66144	
7	अग्नि सुरक्षा 3 मीटर चौड़ी कटाई सफाई			2000 र.मी.	2.25 मा.दि.प्रति.मी	5	1431
	योग मजदूरी					377	125844
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)							
8	बाजार दर	रासायनिक खाद (डी.ए.पी./युरिया) एवं कीटनाशक खरीदी – (20 ग्राम डी.ए.पी. + 20 ग्राम युरिया + 10 ग्राम कीटनाशक प्रति पौधा	163 कि.ग्रा.	24 रु.प्रति कि.		3912	
9	बाजार दर	डिजल व्यय				20000	
10	एल एस	अन्य आकस्मिक व्यय				244	
	योग सामग्री					0	24156
	महा योग (मजदूरी + सामग्री) :-					377	150000

यनमंडलाधिकारी
वनमंडल घार

उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

Mawar
वन परिषेत्राधिकारी
वन परिषेत्र सरदारपुर

परिशिष्ट - 1

1600 पौधे प्रति हेक्टर

मानव दिवस रु 350

तृतीय वर्ष (रखरखाव का प्रथम वर्ष 2019 - 20)

क्र.	जाब दर आयटम नं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./मा.दि. प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)						
1	एल एस	फेसिंग मरम्मत	2.003 हे.	2 मा.दि.प्रति हे.	4.00594	1402.08
2	बाजार दर	पौधा कथ अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त झाड़ा	325 पौधे	15 प्रति पौधा		4875
3		पौधा परिवहन वाहन छारा	325 पौधे	170 प्रति सैकड़ा		552.5
4	भाग 8/3 सी.एफ जाब दर	पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड्ढों तक पहुंचना समस्त साईज की दूसी 2 किमी तक) 10% के जुआलिटी	325 पौधे	0.4 मा.दि.प्रति सैकड़ा	1	455
5	भाग 3/9 सी.एफ जाब दर	निराई गुडाई थाला दुरुस्ती कराई, मृत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना				
		प्रथम निराई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	3250 पौधे	1.25 मा.दि.प्रति सैकड़ा	40.625	14218.8
		द्वितीय निराई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	3250 पौधे	1 मा.दि.प्रति सैकड़ा	32.5	11375
6	भाग 3/10 सी.एफ जाब दर	कृषारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डालना एवं कीटनाशक का छिड़काव	3250 पौधे	0.6 मा.दि.प्रति सैकड़ा	20	6825
7	सी.एफ जाब दर	सिंचाई कार्य 8 माह हेतु 1 श्रमिक- निराई गुडाई, सफाई कार्य एवं क्षेत्र पथरीला, हार्ड मुरम अल्प वर्षा के कारण समुह (ब) को आधारित मानते हुए सफलता सुनिश्चित करने हेतु 8 माह में 2 बार सिंचाई की आवश्यकता होगी।	208	208 8x1x26	208	72800
8	अग्नि सुखा 3 भीटर चोड़ी कटाई सफाई		2000 र.मी.	2.25 मा.दि.प्रतिKM	5	1575
	योग मजदूरी				310	114078
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)						
9	बाजार दर	रासायनिक खाद (डी.ए.पी./युरिया) एवं कीटनाशक खारीदी - (20 ग्राम डी.ए.पी. + 20 ग्राम युरिया + 10 ग्राम कीटनाशक प्रति पौधा =	163 कि.गा.	24 प्रति कि.ग्रा.		3912
10	बाजार दर	डिजल व्यय				20000
11	एल एस	अन्य आकर्षित व्यय				2010
		योग सामग्री			0	25922
		महा योग (मजदूरी + सामग्री) :-			310	140000

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल घार

उपर्यन्तर्भूताधिकारी
उपर्यन्तर्भूत सरदारपुर

Manoj
वन परिषेत्राधिकारी
वन परिषेत्र सरदारपुर

परिशिष्ट - 1

1600 पौधे प्रति हैक्टर

मानव दिवस रु 385

चतुर्थ वर्ष (रखरखाव का द्वितीय वर्ष 2020 - 21)

क्र.	जाब दर आयटम नं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./मा.वि. प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)						
1	सी.एफ जाब दर	सिवाई कार्य 4 माह हेतु 1 श्रमिक— नियाई गुडाई, सफाई कार्यों एवं लेवर पथरीला, हार्ड मुरम अल्प वर्षा के कारण समुह (ब) को आधारित मानते हुए सफलता सुनिश्चित करने हेतु 8 माह में 2 बार सिवाई की आवश्यकता होगी।	104	104 4x1x26	104	40040
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)						
2	एल एस	डिजल व्यय				10000
3	एल एस	अन्य आकस्मिक व्यय				960
		योग			0	51000

परिशिष्ट - 1

1600 पौधे प्रति हैक्टर

मानव दिवस रु 424

पंचम वर्ष (रखरखाव का तृतीय वर्ष 2021 - 22)

क्र.	जाब दर आयटम नं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./मा.वि. प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)						
3	एल एस	अन्य आकस्मिक व्यय				2000
		योग सामग्री			0	2000

पनमठलाधिकारी

पनमठल धार

उपवनमठलाधिकारी

उपवनमठल सरदारपुर

बन परिवेशाधिकारी

बन परिवेशाधिकारी

परिशिष्ट - 1

1600 पौधे प्रति हेक्टर

मानव दिवस रु 466

षष्ठम वर्ष (रखरखाव का चतुर्थ वर्ष 2022 - 23)

क्र.	जाब दर आयटम नं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./मा.दि. प्रति ईकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
		ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)				
2	एल एस	अन्य आकस्मिक व्यय				1000
		योग सामग्री				1000

परिशिष्ट - 1

1400 पौधे प्रति हेक्टर

मानव दिवस रु 513

सप्तम वर्ष (रखरखाव का पंचम वर्ष 2023 - 24)

क्र.	जाब दर आयटम नं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./मा.दि. प्रति ईकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
		ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)				
2	एल एस	अन्य आकस्मिक व्यय				1000
		योग सामग्री			0	1000

पनम डलाधिकारी
पनमडल धार

उपवनमडलाधिकारी
उपवनमडल सरदारपुर

Alamot
वन पर्यायोद्यकारी
वन परिषेत्र सरदारपुर

परिशिष्ट - 1
1600 पौधे प्रति हैक्टर
मानव दिवस रु 564

अष्टम वर्ष (खरखात का छटवा वर्ष 2024 - 25)

क्र.	जाब दर आयटम नं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./मा.दि. प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)						
2	एल एस	अन्य आकस्मिक व्यय				1000
		योग सामग्री			0	1000

परिशिष्ट - 1
1600 पौधे प्रति हैक्टर
मानव दिवस रु 620

नवम वर्ष (खरखात का सातवा वर्ष 2025 - 26)

क्र.	जाब दर आयटम नं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./मा.दि. प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)						
2	एल एस	अन्य आकस्मिक व्यय				1000
		योग सामग्री			0	1000

1
वनमंडलाधिकारी
वनमंडल धार

उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

Chawal
वन परिवेशाधिकारी
वन परिवेश सरदारपुर

परिशिष्ट - 1

1600 पौधे प्रति हेक्टर


मानव दिवस रु 682

दशम वर्ष (खरखात का आठवा वर्ष 2026 - 27)

क्र.	जाब दर आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./मादि. प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	मनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
		ब सामग्री गूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)				
1	एल एस	अन्य आकर्षित व्यय				1000
		योग सामग्री			0	1000

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल धार

उपवनमंडल धिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर


वन परिषेत्राधिकारी
वन परिषेत्र सरदारपुर

गोशवारा

वर्ष	राशि रु.
प्रथम वर्ष – क्षेत्र तैयारी	250088
द्वितीय वर्ष – रोपण	150000
तृतीय वर्ष – रखरखाव का प्रथम वर्ष	140000
चतुर्थ वर्ष – रखरखाव का द्वितीय वर्ष	51000
पंचम वर्ष – रखरखाव का तृतीय वर्ष	2000
षष्ठम वर्ष – रखरखाव का चतुर्थ वर्ष	1000
सप्तम वर्ष – रखरखाव का पंचम वर्ष	1000
अष्टम वर्ष – रखरखाव का छठवा वर्ष	1000
नवम वर्ष – रखरखाव का सातवा वर्ष	1000
दशम वर्ष – रखरखाव का आठवा वर्ष	1000
योग	598088
1 अनुश्रवण एवं मुल्यांकन (20 प्रतिशत)	119618
2 आस्था मूलक (12 प्रतिशत)	71771
3 मानव संसाधन (3 प्रतिशत)	17943
महायोग	807419

उपवनमंडलाधिकारी
क्षेत्रीय उपवनमंडल सरदारपुर

वनपरिक्षेत्राधिकारी
सरदारपुर


वनमंडलाधिकारी
क्षेत्रीय वनमंडल घार

Compensatory Afforestation Map-II
(Georeferenced Map)
Project - Karam Medium Project
Proposal No. : FP/MP/IRRIG/20856/2016



1:4,000

District - Dhar
Tehsil - Sardarpur
Village - Salwa
Area : 2.0797 Ha.



Coordinate Details		
Point	X (Longitude)	Y (Latitude)
1	75°03'55.11376"E	22°55'11.276"N
2	75°03'55.11409"E	22°55'11.409"N
3	75°03'55.16429"E	22°55'10.38797"N
4	75°03'55.10073"E	22°55'09.38147"N
5	75°03'55.04629"E	22°55'08.38028"E
6	75°03'55.07229"E	22°55'08.38004"E
7	75°03'55.74837"E	22°55'08.38037"E
8	75°03'55.74407"E	22°55'08.40426"E
9	75°03'55.64894"E	22°55'08.40063"E
10	75°03'55.61860"E	22°55'08.39777"E
11	75°03'55.53891"E	22°55'08.39148"E
12	75°03'55.31207"E	22°55'08.38000"E
13	75°03'55.34255"E	22°55'08.37695"E
14	75°03'55.54827"E	22°55'08.37275"E
15	75°03'55.33347"E	22°55'08.36399"E
16	75°03'55.54407"E	22°55'08.36331"E
17	75°03'55.61899"E	22°55'08.35334"E
18	75°03'55.72667"E	22°55'08.34376"E
19	75°03'55.84106"E	22°55'08.34845"E
20	75°03'55.84437"E	22°55'08.34835"E
21	75°03'55.97221"E	22°55'08.33387"E
22	75°03'55.10432"E	22°55'08.32277"E
23	75°03'55.10438"E	22°55'08.30887"E

Legend
● Geo Reference Points
— Khasra Details

उपवन मंडलाधिकारी
उपवन मंडल, सरदारपुर

बन परिक्षेत्राधिकारी
बन परिक्षेत्र उत्तराखण्ड

16

जहाँ तक संग्रह हो दूर ड्रेसिंग एवं पौधा रोपण के कार्य को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी जावे। उपरोक्त कार्यों को पूर्ण रूपेण किये जाने के उपरात ही भू एवं जल संरक्षण का कार्य किया जावे। भू एवं जल संरक्षण के नालों के ऊपर घेकडेम निर्गाण की प्राथमिकता दी जावे चयनित नालों को पूर्ण रूपेण उपचार करने के पश्चात ही नालों का चयन किया जावे।

17

वृक्षारोपण क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित कक्ष में किसी प्रकार का अतिक्रमण होने पर उसे बेदखल करने की कार्यवाह उपरात ही वृक्षारोपण किया जावे।

18

वृक्षारोपण स्थल की परिधि में उपलब्ध समस्त मुनारों की मरम्मत एवं पुताई की जावे तथा मुनारों संरक्षण के माध्यम से अंकित किये जावे।

19

खाद/निमखली कथ, उपजाऊ मिट्टी के परिवहन एवं परिवर्तन के ब्याप पर मितव्यविता वरती जावे। उपजाऊ मिट्टी के परिवहन 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी से नहीं कराया जावे। निर्धारित दूरी से अधिक एवं आवश्यकता से अधिक प्राप्त की जावे। प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र विभाग से उपरात ही अनुसंधान विवरार की नर्सरी से प्राप्त करे।

20

प्राक्कलन रथाई अभिलेख है, जिसे स्पाईरल वाइडिंग करायी जाकर सुरक्षित रखा जावे।

21

प्रतिलिपि - 1479

पु. क्र. / मा. वि. / 2017 /
प्रतिलिपि -

इन्दौर, दिनांक

10-3-17

(पुरुषोत्तम वीरगान)
मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक,
इन्दौर वृत्त, इन्दौर

महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल धार की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा.वि. / 2017 / 1403 दिनांक 06.03.2017 में राज्य सूचनार्थ प्रेषित। अनुमोदित प्राक्कलन की मूल प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सलग्न प्रेषित है। व्यय में पूर्ण मितव्यविता वरती जावे तथा कार्य उच्च गुणवत्ता का होना चाहिये। प्राक्कलन की एक प्रति सबधित कार्य प्रभारी को उपलब्ध कराई जावे। प्राक्कलन अवधि सानाति उपरात कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ-साथ क्षेत्र की मूलाकान कर सफलता/असफलता का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करे।
सलग्न - उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्रोजेक्ट की प्रति द्वितीयक में आदेश प्रति।

() मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक,
इन्दौर वृत्त, इन्दौर

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा प्रसारित
आदेश

क्रमांक / मा.चि / 2017 / 176

इन्दौर दिनांक 10-3-17

म.प्र. शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621/3/नियम/चार. भोपाल दिनांक 3-09-2003 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा सहित प्रस्तुत प्रावकलन की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है :-

वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र	योजना का नाम	कार्य स्थल	कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र हेतु 0 में	आर्थिक लक्ष्य (लाख में)	योजना अवधि
धार	सरदारपुर	कारम नद्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त गैरवन भूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना	ग्राम-सलवा	2.029	8.07	2017-18 से 2026-27
		योग	-	2.029	8.07	-

उक्त व्यय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवंटन के विरुद्ध विकलनीय होगा।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन मान्य रहेगी :-

- 1 समस्त कार्य मुख्यालय भोपाल एवं वन संरक्षक, (क्ष.) इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा स्वीकृत जॉबदरों पर ही कराये जावें। यदि किसी कार्य की जॉबदर स्वीकृत न हो तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराये जावें।
- 2 फोसिंग तथा अन्य सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियमों का पालन किया जावे।
- 3 स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। अतः प्रोजेक्ट स्थल पर वास्तविक कार्य स्थल की आवश्यकता अनुसार मितव्ययिता बरतते हुए किया जावे।
- 4 वनमण्डलाधिकारी/उप वनमण्डलाधिकारी कार्यों का निरीक्षण कार्य अवधि में अनिवार्य रूप से करेंगे तथा प्लाटेशन जनरल में निरीक्षण टीप अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे।
- 5 तकनीकी प्रशासनिक एवं कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण नियंत्रण रखना परिक्षेत्राधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।
- 6 कार्य के दौरान क्षेत्र की आवश्यकता एवं उद्देश्य को देखते हुए किसी विशेष कार्य की मात्रा में संशोधन एवं बदलाव किये जाने हेतु परिक्षेत्र अधिकारी वनमण्डलाधिकारी से अनुमोदन उपरान्त कार्य स्थल की परिस्थिती को देखते हुवे बदलाव कर सकेंगे। परंतु इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह बदलाव प्रोजेक्ट में प्रस्तावित कुल राशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जावेगा। यदि कार्य की मात्रा में संशोधन अथवा बदलाव किया जाता है तो वर्ष के अन्त में पुनरिक्षित तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जावें। यदि संशोधित स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती है तो यह माना जावेगा कि किया गया कार्य स्वीकृत प्रावकलन एवं निर्धारित शर्तों के अनुसार ही किया गया है। संशोधित स्वीकृति प्राप्त करने की सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित वन शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
- 7 प्लाटेशन जनरल कार्य प्रारंभ के दिनांक से संधारित किया जावेगा। इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश की प्रति प्लाटेशन जनरल में चर्चा की जावे।
- 8 योजना में जिन कार्यों के माप, डिजाइन तथा चित्र आदि प्रस्तावित हैं, कार्य संपादित कराने वाले प्रभारी कर्मचारी को प्रदाय किये जावें।
- 9 योजना का कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जावें।
- 10 श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर द्वारा जारी समस्त श्रम नियमों एवं प्रचलित मजदूरी का पालन किया जावे।
- 11 योजना के उद्देश्यों के अनुरूप ही चयनित प्रजातियों का ही रोपण किया जावें।
- 12 प्रस्तावित क्षेत्र के Google earth का रंगीन मानचित्र प्रोजेक्ट में अनिवार्य रूप से लगाया जावें।
- 13 प्रावकलन में प्रस्तावित सभी कार्यों को उपचार मानचित्र में दर्शाया जावें।
- 14 कार्य के दौरान समस्त कार्यों के फोटोग्रॉफ्स लेकर प्लाटेशन जनरल में चर्चा किये जावें। फोटोग्रॉफ्स किस साईट से व किस दिनांक को लिये गये हैं, फोटो पर स्पष्ट लिखा जावें।

10 MAR 2017

12K300-IV